

G. K. CONSULTANTS LIMITED

PROJECT CONSULTANTS-CONCEPT TO COMMISSIONING Web: gkconsultantsltd.com, CIN: L74140DL1988PLC034109 302, G. K. HOÚSE, 187A, SANT NAGAR, EAST OF KAILASH, NEW DELHI-110065. INDIA

PHONE: 26489299, 26489431 FAX: 011-26489299

E-mail: akg_gkcl@yahoo.co.in

GKCL: SE:2024-25 September 04, 2024

To,
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code : 531758

Sub.: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Notice of 36th AGM

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to applicable regulation of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of each newspaper clipping of the advertisement published on 04.09.2024 on the subject matter in the following newspapers:

- a) Jansatta
- b) Financial Express

This is for your information and record.

Thanking you,

For G.K. CONSULTANTS LIMITED

Khushambi

Company Secretary and Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

PREMIUM MERCHANTS LIMITED

Registered office: Omaxe Square, Plot No. 14, 3rd Floor, Jasola District Centre, Jasola, New Delhi-110025

CIN: L51909DL1985PLC021077, Tel: +91 11 61119661/371 Email Id: premiummerchants123@gmail.com, Website: www.pmltd.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be

held on Monday, 30th September, 2024 at the registered office of the Company at Omaxe Square, Plot No. 14, 3rd Floor, Jasola District Centre, Jasola, New Delhi-110025 at 2.00 P.M. to transact the businesses mentioned in the Notice of Annual General Meeting. The notice of AGM along with Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip have been

sent in electronic form to those shareholders whose email address are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants, unless the Members have requested for hard copy of the same. Physical copy have been dispatched through permitted mode to all other members. The Company has completed all dispatches through e-mail and other permitted modes on Monday 2nd September, 2024. Members may note that the Annual Report, AGM Notice inter alia indicating the process and

manner of e-voting process. Proxy Form and Attendance Slip are available on Company's website www.pmltd.in and can also be obtained from registered office of the Company. n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Amendments Rules, 2015 and Regulation 44

of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and business may be transacted through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-voting period commences from Thursday, 26th September, 2024 at 9.00 A.M and ends on Sunday 29th September, 2024 at 5.00 P.M. The remote e-voting shall be disabled thereafter and no e-voting will be allowed thereafter. The Board has appointed Mr. Surrinder Kishore Kapahi, Proprietor Kapahi and Associates, Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the e-voting process in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 23rd September 2024. Members holding shares either in physical or in dematerialized form, on the said cut-off date, are eligible to avail the facility of remote e-voting. Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of AGM Notice and holds such shares as of the cut-off date i.e., 23rd September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

At the AGM, facility for voting through ballot paper shall be made available and only the Members as on the "cut-off date" i.e, 23rd September, 2024, who have not cast their votes by remote e-voting shall be entitled to exercise their rights to vote at the AGM through ballot paper. The members who have cast their votes through electronic means prior to the AGM may still attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

The notice of AGM containing, inter-alia, the procedure of e-voting is available on the Company's website www.pmltd.in and on NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com.

n case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQS) and e-voting user manual available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.: 1800-222-990 or or write a mail to investor@masserv.com Notice is also hereby given that that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

> Jyoti Bharti Company Secretary

For Premium Merchants Limited

INNOVATIVE TECH PACK LIMITED CIN: L74999HR1989PLC032412

Place: New Delhi

Date: 03.09.2024

Place: Noida

Dated: 03rd September, 2024

Registered Office: Plot No. 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 Website: www.itplgroup.com, E-mail: grievence@itplgroup.com Tele. No.: 120-7195236-239

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of Innovative Tech Pack Limited will be held at 09:00 AM on Monday, 30th September, 2024 at Hakim Ji Ki Choupal, Opp. Batra Hospital, Vill. Ujina, Police Station Nuh, Sohna, Haryana-122103 to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice").

Notice along with Annual Report for 2023-24 have been sent through electronic mode to all the members whose email ID's are registered with company/Depository Participants. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 03rd September, 2024 Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the cut off date i.e. Monday 23rd September, 2024, the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice.

The e-voting period will commence on Friday, 27th September, 2024 at 09:00 am and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 05:00 pm. The remote e-voting will be disabled by CDSL beyond the said date and time.

The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday 23rd September 2024.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e Monday 23rd September 2024, may obtain the User id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be

entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently. The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members

who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficia owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e. Monday 23rd September

2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM The Notice along with Annual Report is available at the Company's website viz www.itplgroup.com.

The Notice is also available on the website of CDSL viz www.cdslindia.com

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addresse to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited. Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Pare (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

For Innovative Tech Pack Limited Mohit Chauhan Company Secretary

BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED

Regd. Off: B - 09, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110068 Ph. No. 011-45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507

Email ID: brilliantportfolios@gmail.com, Website: www.brilliantportfolios.com NOTICE

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ('AGM') of Brilliant Portfolios Limited ("the Company") is scheduled to be held on Sunday, 29th September, 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. The AGM is held through electronic mode in accordance with the circulars issued from

time to time by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"). In compliance with the MCA Circulars, circulars issued by the Securities and Exchange Board of India "SEBI"), the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI listing Regulations"), the Notice for convening the AGM along with the Annual Report for FY24 ("Annual Report) have been sent only through electronic node on September 2, 2024 to the Members Whose e-mail addresses are registered with the Depositor, Participants ("DPs") / Company/ Registrar and Transfer Agent viz. Mas Services Limited ("RTA").

Member can request for a physical copy of the Annual Report by sending an e-mail to the Company at brilliantportfolios@gmail.com. The copy of AGM Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company viz. www.brilliantportfolios.com and on the website of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. All the documents referred in the Notice are available for inspection electronically from the date of dispatch of the Notice till Sunday, September 29, 2024

Members seeking to inspect such documents are requested to write to the company Members can join the AGM through VC / OAVM, 30 minutes before the scheduled time of commencemen of AGM and 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting through the facility provided by NSDL at www.evoting.nsdl.com by using the login credentials and selecting the E-Votin Event Number (EVEN) for the Company's AGM. The procedure for joining the AGM through VC/OAVM is

The attendance of members participating in the AGM though VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the guorum under Section 103 of the Act.

Instructions for remote E-Voting and E-Voting during the AGM: In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and

mentioned in the Notice.

Administration) Rules, 2014. Secretarial Standard on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the facility for remote e-voting in respect of the business to be transacted at the AGM is being provided by the Company through NSDL. Necessary arrangements have been made by the Company with NSDL to facilitate remote e-voting. All the Members are hereby informed that: A person whose name is recorded in the Register of Members / Beneficial Owners list maintained by the

depositories as on the cut-off date i.e Sunday, September 22, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

The remote e-voting will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting Thursday, September 26, 2024 at 9 A.M. (IST) Saturday, September 28, 2024 at 5 P.M. (IST) End of remote e-voting

 The remote e-voting will be disabled after 5:00 p.m. on Saturday, September 28, 2024 and the same will be enabled only during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend / participate in the

AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members, who are present at the AGM through VC/ OAVM and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

The manner in which persons who have acquired shares of the Company and became Members of the Company after the dispatch of Notice may obtain the necessary login 1D and password, as mentioned in

For the limited purpose of receiving the Annual Report through electronic mode, in case the e-mail address is not registered with the DPs/ Company / RTA, Members may register the e-mail IDs by

sending e-mail to the Company at brilliantportfolios@gmail.com, Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in dematerialized form and with Company /RTA in case the shares are held by them in physical

The detailed procedure and instructions for casting votes through remote e-voting or e-voting during the AGM for all Members (including the Members holding shares in physical form / whose e-mail addresses are not registered with the DPs / Company / RTA) are stated in the Notice.

Helpdesk details for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues elated to login through Depository i.e. NSDL and CDSL, is provided below:

Helpdesk details Login type

mode with CDSL

Place: New Delhi

Date : 03.09.2024

ndividual Shareholders Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk holding_securities_in_demat[by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or call at toll free no.: 1800 node with NSDL 1020 990 and 1800 22 44 30

ndividual Shareholders Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk

holding_securities_in_demat|by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738, 022-23058542-43 or 1800 22 5533 For Brilliant Portfolios Limited

Company Secretary and Compliance Officer

(Ashish)

Samridhi Promoters Private Limited CIN: U74899DL1995PTC064722

Registered Office: 308, Bakshi House, 40-41, Nehruplace, New Delhi, Delhi-110019 Email id: info@wingaitinn.com Telephone No.: 176-255837 FORM NO. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement for Change of Registered office of the Company from one State to another

Before the Central Government Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Samridhi Promoters Private Limited having its registered office at 308, Baksh House, 40-41, Nehruplace, New Delhi, Delhi-110019

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of atteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting held on 10/10/2023 to enable the Company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Maharashtra"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registerer office of the Company may deliver or cause to be delivered either on MCA-21 Portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendaya Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office at the addresses mentioned below:

Address: 308, Bakshi House, 40-41, Nehruplace, New Delhi, Delhi-110019

For & on behalf of

Samridhi Promoters Private Limited

Sonika Prashar

DIN: 03093650

Director

. Petitioner

Place: New Delhi

JAUSS POLYMERS LIMITED

CIN: L74899HR1987PLC066065 Registered Office: Plot No. 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103

Website: www.jausspolymers.com, E-mail: response@jausspolymers.com

Tele. No.: 120-7195236-239 NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING INFORMATION AND **BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of Jauss Polymers Limited will be held at 09:30 AM on Monday, 30th September, 2024 at Hakim Ji Ki Choupal, Opp. Batra Hospital, Vill. Ujina, Police Station Nuh, Sohna, Haryana-122103 to transact such business as set out in the Natice of AGM ("Notice").

Notice along with Annual Report for 2023-24 have been sent through electronic mode to all the members whose email ids are registered with company/Depository Participants. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 03rd September, 2024 Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the cut off date i.e Monday 23rd September, 2024, the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice.

The members are informed that -

 The e-voting period will commence on Friday, 27th September, 2024 at 09:00 am and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 05:00 pm. The remote e-voting will be disabled by CDSL beyond the said date and time.

The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday 23rd September, 2024.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e Monday 23rd September, 2024, may obtain the User Id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be

The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e Monday 23rd September 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM The Notice along with Annual Report is available at the Company's website viz

www.jausspolymers.com. The Notice is also available on the website of CDSL viz All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed

to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

> For Jauss Polymers Limited Priya Parashar

Place: Noida Dated: 03rd September, 2024 Company Secretary

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED CIN: L65993DL1989PLC035409

Reg. Off.: DSC-327, Second Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017 E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com; Website: www.aiml.in : Tel. No.: 011-41049702 NOTICE OF 35™ ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given to the Members of Alliance Integrated Metaliks Limited("Company"

that the 35" Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 25" September, 2024 at 12.00 p.m.(IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business(es) as set out in the notice of AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the company which shall be the deemed venue of the AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 and various other circulars related thereto (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular no SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023, SEBI/HD/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and Master Circular SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("the SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

In compliance with the above circulars, the electronic copies of Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 have been sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 30' August, 2024 and whose email address are registered with the depository participants and with the Company or M/s, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Registrars & Share Transfer Agent, the emailing of the said documents has been completed on Tuesday, 03" September, 2024.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19" September, 2024 to 25" September, 2024 (both days inclusive) for the

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and substituted by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 35" Annua General Meeting (AGM) by electronic means ('remote e-voting'). The facility for online voting through electronic means shall also be made available at the AGM and Members who have already cast their votes through electronic mode during the schedule voting period prior to the date of the meeting will not be entitled for online voting as on the date of the AGM. Members participating through the VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (hereinafter referred as "CDSL") as agency to provide emote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Act and Rules are given

The remote e-voting period commences on Sunday, 22" September, 2024 and ends on Tuesday, 24th September, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL

Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 18" September, 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means.

Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for e-voting from the Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Center, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062, Tel: 011-29961281-83 Email: investor@beetalfinancial.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her exiting user ID and password for casting the vote through e-voting.

Further the board of Directors of the Company has appointed AASK & Associates LLP Company Secretaries (LLPIN: AAD-2934) for scrutinizing the remote e-voting process as well as voting during the AGM in fair and Transparent Manner. The result of remote evoting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results along with Scrutinizer's Report shall be place on the website of the Company at www.aimf.in and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com. Members who have not registered their email are requested to register the same in the

respect of the shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participants and in respect of the shares held in physical form be written to Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited at investor@beetalfinancial.com. The Notice of AGM and the Annual Report 2023-24 is available at company's website at

For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in Notice of the 35" AGM.

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also join

www.bseindia.com.

Place: New Delhi

Date:03rd September, 2024

www.aiml.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website

in the meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) but shall not be entitled to cast their vote again through online voting. If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, the manner of the casting vote through Remote e voting or through e-voting during the AGM. For Alliance Integrated Metaliks Limited

Daljit Singh Chahal

Chairman Cum Wholetime Director DIN: 03331560 Form No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another **Before the Central Government Regional Director, Northern Region**

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) rules, 2014 AND

In the matter of Global Infocom Private Limited (formerly known as Global Infocom Limited) having its registered office at E-10, F/F, Jawahar Park, Laxmi Nagar, East Delhi. Delhi-110092 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013

seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 26th August 2024 to enable the Company to change its Registered Office from "Union Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by

filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address at B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi — 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: Address of Registered Office: E-10, F/F, Jawahar Park, Laxmi Nagar, East Delhi

Delhi - 110092 For and on behalf of GLOBAL INFOCOM PRIVATE LIMITED (Formerly Known as Global Infocom Limited) Sd/- Vikram Agrawal

Director DIN: 07284763

Date: 04.09.2024 Place: Delhi

PUBLIC NOTICE

This notice is being issued by Saviour Leasing Private Limited ("the Company"), registered Non-Banking Financial Company, in compliance with Requirement of Prior Public Notice about change in control/management* as per para 5 of Notification No. DNBS.(PD) 029/CGM(CDS- 2015) dated July 09, 2015 and lette no. प. वि (न. दि.) सं 5523 / एनबीएफसी-बीएल / 05.14.062/2024-25 dated 26th August, 2024 issued by the Reserve Bank of India ("RBI") and as advised by the RBI's Department of Supervision, New Delhi, regarding approval for change management & control of the Company by appointing Mr. Anirudh Singhal and Mr. Sarthak Bansal as Directors of the Company and allotment to Mr. Sarthak

Bansal of 2,85,714 shares, to Mr. Samarth Bansal of 2,14,285 shares and to

Background: The Company vide its application dated 06th April, 2024 applied to change in management & control by adding Mr. Anirudh Singhal and Mr. Sarthak Bansal as Directors of the Company and for change in Shareholding by allotting 2,85,714 shares to Mr. Sarthak Bansal, 2,14,285 shares to Mr. Samarth Bansa and 16,42,857 shares to Mr. Kishore Kumar Bansal and for addition of the said individuals as Shareholders of the Company, the said application was approved vide the approval letter dated 26th August, 2024 which as a condition for approval has asked the Company to publish a public notice as per para 5 of Notification No. DNBS.(PD) 029/CGM(CDS- 2015) dated July 09, 2015. The change in management & control as mentioned above will be effective post 30 days of publication of this notice. Any clarification/objection in this regard may be addressed to the Company within 30 (thirty) days from the date of this notice, addressed to Mr. Chetan Kumar, Director of the Company, at the registered office of the Company or at email saviourleasing@gmail.com,

For Saviour Leasing Private Limited Date: 03/09/2024

Mr. Kishore Kumar Bansal 16,42,857 shares.

Place: New Delhi

DIN: 0032768

Chetan Kumar (Director)

Phone: 011-35453545 | info@swastikpipes.com | CIN: U74899DL1973PLC006881 NOTICE OF 51st ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SWASTIK PIPE LIMITED ("MEETING") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM),

Central Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110002

SWASTIK PIPE LIMITED

REG OFFICE: 1/23B, Asaf Ali Road, Aimeri Gate Extr.

Members may please note that the 51" Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) on Saturday, 28 September 2024 at 10:30 A.M. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act). the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), read with General Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 & other circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI circular dated 07.10.2023, to transact the businesses that will be set forth in the

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the Meeting and other documents will be sen only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/RTA/ Depository Participant(s). The Notice of the Meeting and other documents will also be available on the Company's website at https://swastikpipes.com, on the website of Stock Exchange National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of e-voting service provider i.e. M/s National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

the dispatch of electronic copies of Notice of the Meeting ("Notice") along with Explanatory Statement, through electronic mode to all those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories as on Friday, August 30, 2024 ("Cut-off date"). the e-voting period commence on Wednesday, 25th September, 2024, at 9:00 a.m. (IST);

in compliance with the above-mentioned provisions and MCA circulars, the Company has completed

the e-voting period ends on Friday 27th September 2024 at 5:00 p.m. (IST). The e-Voting module shall only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depository Participant(s) as on the Cut-off date

i.e. 21st September 2024, are entitled to cast their votes by remote e-voting; a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; remote e-voting shall not be allowed beyond on Friday 27th September 2024 at 5:00 p.m. (IST).

Detailed instructions for remote e-voting are provided in the notes of the Notice of Meeting. The Board of Directors of the Company has appointed CS Karm Sawhney Practicing Company Secretary having membership No. A64986, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and casting vote through the e-voting system in a fair and transparent manner. Members who have not received Notice may write to cs@swastikpipes.com and obtain the same

over email or download the same from the website of the Company.

in case of any queries with respect to voting by electronic means, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Contact Detail for addressing e-voting related queries/grievances, if any at: Mr. Aman Goel, Manager, NSDLat evoting@nsdl.co.in. Members who have not registered their e-mail addresses so far with the Company or Depository

Participants, may complete the e-mail registration process as under:

For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant's. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the Meeting and in

particular, instructions for joining the Meeting, manner of casting vote through remote evoting and e-voting during the Meeting. Further, SEBI vide its circular dated 30.05.2022 has issued Standard Operating Procedures (SOP) for dispute resolution under the Stock Exchange arbitration mechanism for disputes between a Listed Company and/or Registrars to an Issue and Share Transfer Agents (RTAs)and its Shareholder(s)/

This notice is issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

For and on behalf of Swastik Pipe Limited Sandeep Bansal Date : 05.09.2024 Managing Director DIN: 00165391

HERO HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office: 09. Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057. Branch Office: Office No. 7, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 PUBLIC NOTICE (E- AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY) [UNDER RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002]

NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY MORTGAGED WITH HERO HOUSING FINANCE LIMITED (SECURED CREDITOR) UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and guarantor(s) or their legal heirs/representatives that the below described immovable properties mortgaged/charged

to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Hero Housing Finance Limited (secured creditor), will be sold on 08-Oct-2024 (E-Auction Date) on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrowers, Co-Borrowers or Guarantors. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. The EMD should be made through Demand Draft/RTGS/NEFT for participating in the Public E-Auction along with the Bid Form which shall be submitted to the Authorised Officer of the Hero Housing Finance Ltd On or before 07-Oct-2024 till 5 PM at Branch Office: Office No. 7, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057. Name of Borrower(s)/ Co- Date of Type of Possession Reserve Price Loan

Account Borrower(s)/ Guarantor(s) Demand Notice (Under Constructive Earnest /Legal Heir(s)/ Legal Rep. | Amount as on date Money Rs. 19,00,000/-HHFDELH Vinit Malik, Urvashi Wife 25/08/2023 Rs. Physical OU190000 Of Vinit Malik, Priti 20,38,577/- as Rs. 1,90,000/-05618 on 31/08/2024 Shyoran Description Of Property: Third Floor With Roof Rights, Built On Plot No-32, Khasra No. 1532 Khata No. 175 In Four Storey Building, Krishna Kunj Phase-02, Village- Raispur, Pargana Dasna

Tehsil And District Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010, Having Super Area Measuring 87.32 Sq. Mtrs-

And Covered Area Measuring 78.59 Sq. Mtrs Consisting Of Three Bedrooms, One Drawing Room,

Two Toilet Bathrooms & One Kitchen. Plot No. 32 On Khasra No. 1532 Bounded By: North: Plot No.

Terms and condition: The E-auction will take place through portal https://sarfaesi.auctiontiger.net on 08-Oct-2024 (E-Auction Date) After 2.00 PM with limited extension of 10 minutes each. The Intending Purchasers / Bidders are required to deposit EMD amount either through RTGS

NEFT or by way of Demand Draft/RTGS/NEFT favouring the "HERO HOUSING FINANCE LTD." The EMD amount will be return to the unsuccessful bidders after conclusion of the Eauction. Terms and Conditions of the E-Auction: 1,E-Auction is being held on "As is where is Basis" & "As

31East: Plot No. 25 South: Other's PropertyWest: 18 Ft Wide Road

is what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recourse Basis" and will be conducted online*, 2,Bid increment amount shall be Rs, 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only). 3.The Auction will be conducted through M/s E-Procurement Technologies Ltd. (Helpline No(s): 07961200576/544/594/596/531/583/569, 6351896643 and E-mail on support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net) at their web portal https://sarfaesi.auctiontiger.net. 4. There is no encumbrance on the property which is in the knowledge of Secured Creditors. However, the intending bidders should make their own independent enquires regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims/ rights/ dues/ affecting the property, prior to submitting their bids. In this regard, the E-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute ant commitment or any representation of Hero Housing Finance Limited. 5. The Authorized Officer Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues. The sale shall be subject to rules/ conditions/ prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The other terms and conditions of the E-Auction are published in the following website: www.herohousingfinance.com 6. For property details and visit to property contact to Mr. Ershad Ali / ershad.ali@herohfl.com/ 8802270415 and Shekhar Singh/9711522275/ shekhar singh@herohfl.com . The prospective bidders can inspect the property on 01-Oct-2024 between 11:00 A.M and 2:00 P.M with prior appointment.

The above mentioned Borrower/Mortgagor/guarantors are hereby noticed to pay the sum as mentioned in Demand Notice under section 13(2) with as on date interest and expenses before the

date of Auction failing which the property shall be auctioned and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost from you. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice on Hero Housing Finance Limited

30 DAYS SALE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR/MORTGAGOR

Authorised officer Date: 04/09/2024 Mr. Sunil Yadav, Mob- 9818840495 Place: Delhi/NCR Email;assetdisposal@herohfl.com

For Hero Housing Finance Ltd.

N K Textile Industries Limited

Jasola, New Delhi-110025 CIN: L17299DL1983PLC163230, Tel: +91 11 61119429 Email Id: n.ktextiles123@gmail.com, Website: www.nktil.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September, 2024 at the Registered office of the Company at Omaxe Square, Plot No. 14, 3rd Floor, Jasola District Centre, Jasola, New Delhi-110025 at 3.00 P.M. to transact the businesses mentioned in the Notice of Annual General Meeting.

The notice of AGM along with Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip have been sent in electronic form to those shareholders whose email address are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants, unless the Members have requested for hard copy of the same. Physical copy have been dispatched through permitted mode to all other members. The Company has completed all dispatches through e-mail and other permitted modes on Monday 2nd August, 2024.

n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Amendments Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and business may be transacted through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-voting period commences from Thursday, 26th September, 2024 at 9.00 A.M and ends on Sunday 29th September, 2024 at 5.00 P.M. The remote e-voting shall be disabled thereafter and no e-voting will be allowed thereafter. The Board has appointed Mr. Surrinder Kishore Kapahi, Proprietor Kapahi and Associates, Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the e-voting process in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 23rd September 2024. Members holding shares either in physical or in dematerialized form, on the said cut-off date, are eligible to avail the facility of remote e-voting. Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of AGM Notice and holds such shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

At the AGM, facility for voting through ballot paper shall be made available and only the Members as on the "cut-off date" i.e, 23rd September, 2024, who have not cast their votes by remote e-voting shall be entitled to exercise their rights to vote at the AGM through ballot paper. The members who have cast their votes through electronic means prior to the AGM may still attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The notice of AGM containing, inter-alia, the procedure of e-voting is available on the Company's website www.nktil.com and on NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQS) and e-voting user manual available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no. :1800-222-990 or or write a mail to investor@masserv.com. Notice is also hereby given that that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

For N K Textile Industries Limited

Date: 03.09.2024 Company Secretary INDO GULF INDUSTRIES LIMITED Corporate Office: 154, Rajpur Road, Jakhan, Dehradun Uttarakhand-248001

E-mail: rj.headoffice@gmail.com, Website: www.indogulfind.com

Place: New Delhi

Phone : 0135-2114568/ 2735249, Fax : 0135-2733960 Corporate Identity Number (CIN) : L74900DL1981PLC011425 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE Notice is hereby given that the 41° Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held or Monday, the 30° Day of September, 2024 at 11:00 A.M through Video Conferencing/other Audio risual means in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General

lanuary 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 on May 13, 2022 (collective SEBI Circulars')(hereinafter collectively referred to as circulars) companies are allowed to hold AGM's through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set out in the AGM Notice in compliance with the circulars, electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report 2023 24 have been sent to all the members whose email-IDs are registered with the Company/Depositor Participant(s). These documents are also available on the website of the Company, at WWW.INDOGULFIND.COM, Stock exchanges website and on the website of Central Depositor securities Limited ("CDSL"). The Dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on

23.08.2024 may cast their votes electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL (remote e-voting). Members are hereby informed that: The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM.

The remote e-voting shall commence on Tuesday 27.09.2024 at 9:00 A.M. The remote e-voting shall end on Thursday 29.09.2024 at 5:00 P.M.

at the AGM shall be 23.09.2024 Remote e-voting module will be disabled after 5:00 P.M on 29:09:2024

Any person who acquires shares of the company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e 23.09.2024 may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com. However, if a person i already registered with CDSL for e-voting then the existing user iD and password can be used for casting their vote. Members may note that a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond

5:00 PM IST on 29.09.2024 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting will also be made available during AGM and those members present in the AGM through VC facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise no barred from doing so , shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. C) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. And d) Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut -off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting of e-voting at the AGM.

mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the AGM. The detail are also be made available on the website of the company. Members are requested to visit www. Indogulfind.in to obtain details. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email

receive copies of the Annual Report 2023-24 along with the notice of the 41 AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC. The manner in which the members who wish to register mandates for receiving their dividend

at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboot Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). All prievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to

Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumba 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 For and on behalf of board

Place : New Delhi

G. K. CONSULTANTS LIMITED

to transact the business as set out in the 36th AGM Notice.

CIN-L74140DL1988PLC034109 Registered Office: 302, G.K. HOUSE 187A, SANT NAGAR, EAST OF KAILASH, NEW DELHI-110065, INDIA **E-mail:** akg gkcl@yahoo.co.in **Website:** www.gkconsultantsltd.com

PUBLIC NOTICE - 36th Annual General Meeting

Members of M/s G.K. Consultants Limited ('the Company') will be held on Saturday. 28th September, 2024 at 4:00 P.M. through Video Conference ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM'), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023 respectively (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October, 07, 2023, ('SEBI Circulars'),

In compliance with the said MCA Circulars and SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of the 36th AGM and Annual Report for the financial Year 2023-24, will be sent within prescribed timelines, to those Members whose e-mail addresses are at www.gkconsultantsltd.com and also on the website of the BSE Limited at

of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its Members to

also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting'). Detailed Procedure for remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM has been provided in the Notice of AGM, which shall be sent to them shortly. 'The login credentials for casting votes through remote e-voting/e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s) may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of the AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM

Manner of registering updating email addresses:

the following documents by email to the Company at akg_gkcl@yahoo.co.in/

(iii) self-attested copy of Address proof (e.g. Aadhaar Card, Driving License, Election

Identity Card, Passport). (b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participant(s), are requested to register/

vote through remote e-voting /e-voting during the AGM. For any assistance in this regard,

New Delhi

Date: 02nd September, 2024

Place: New Delhi

Registered office: Omaxe Square, Plot No. 14, 3rd Floor, Jasola District Centre,

Members may note that the Annual Report, AGM Notice inter alia indicating the process and

manner of e-voting process, Proxy Form and Attendance Slip are available on Company's vebsite www.nktil.com and can also be obtained from registered office of the Company.

Ankit Chaturvedi

Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 (collectively "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date

The cut off date for determining the eligibilityto vote by remote e-voting or by e-voting system

The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical

addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with company's Registrar and share transfer Agent BEETAL Financial & Computer Services Pvt Ltd at beetalrta@gmail.com to

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available

Indo Gulf Industries Limited Priya Chaudhary Company Secretary

Phone: 011-26489299, 26489431 **Fax:** 011-26489299

This is to inform that the 36th Annual General Meeting ('AGM'/'Meeting') of the

registered with the Company / Registrars & Transfer Agent ('Registrar/RTA') / Depository Participants ('DPs'). As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be sent to any Shareholder. The said AGM Notice and Annual Report shall also be available on the website of the Company Members can participate and attend the AGM ONLY through VC/OAVM facility, the details

cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. The Company is

(a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to send the scanned copy of

please contact Company at akg_gkcl@yahoo.co.in.

(i) a signed request letter mentioning their name, folio no. and address; (ii) self-attested copy of the PAN Card and

update their email addresses with their Depository Participant(s). Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM including instructions for attending the AGM through VC/OAVM and the manner of casting

> Divya Malini Gupta Managing Director

For G.K. Consultants Limited

financialexp.epapr.in

Secured Creditor's) website i.e www.herohousingfinance.com

JAUSS POLYMERS LIMITED

CIN: L74899HR1987PLC066065 Registered Office: Plot No. 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103. Website: www.jausspolymers.com, E-mail: response@jausspolymers.com

Tele. No.: 120-7195236-239 NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING INFORMATION AND

BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of Jauss Polymers Limited will be held at 09:30 AM on Monday, 30th September, 2024 at Hakim Ji Ki Choupal, Opp. Batra Hospital, VIII. Ujina, Police Station Nuh, Sohna, Haryana-122103 to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice").

Notice along with Annual Report for 2023-24 have been sent through electronic mode to all the members whose email ids are registered with company/Depository Participants. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 03rd September, 2024. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the cut off date i.e Monday 23rd September, 2024, the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice.

- The members are informed that -The e-voting period will commence on Friday, 27th September, 2024 at 09:00 am and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 05:00 pm. The remote e-voting will be disabled by CDSL
- beyond the said date and time. The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday 23rd September, 2024.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e Monday 23rd September, 2024, may obtain the User Id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently.
- The facility for voting through poling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM.
- A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e Monday 23rd September 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM
- The Notice along with Annual Report is available at the Company's website viz www.jausspolymers.com. The Notice is also available on the website of CDSL viz
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

एनके टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ओमैक्स स्क्वायर, प्लॉट नं. 14, 3रां तल, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर,

जसोला, नई दिल्ली-110025

CIN: L17299DL1983PLC163230 TEL:+91 1161119429

ईमेल आईडी : n.ktextiles123@gmail.com वेबसाईट : www.nktil.com

वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि वार्षिक आम सभा की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निधारित करने के लिये

कम्पनी की 41वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय : ओमैक्स स्क्वायर, प्लॉट नं. 14,

3रा तल, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110025 में सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को 3.00 बजे

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना प्रॉक्सी प्रपत्र तथा उपस्थित पर्ची ऐसे सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक

रूप से भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी के रजिस्टार तथा शेयरअंतरण एजेन्ट/डिपाजिटरी पार्टि सेन्टस के

पास पंजीकृत हैं, बशर्ते सदस्यों ने उसकी हार्ड कॉपी के लिये अनुरोध नहीं किये हों। सभी सदस्यों को स्वीकृत

पद्वत्ति में उसकी भौतिक प्रति भेजी गई है। कम्पनी ने सोमवार, 2 अगस्त, 2024 को ईमेल तथा अन्य स्वीकृत

सदस्यगण ध्यान रखे कि वार्षिक रिपोर्ट, ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा तरीके सहित एजीएम-सूचना, प्रॉक्सी प्रपत्र तथा

उपस्थिति पर्ची कम्पनी की वेबसाइट www.nktil.com पर उपलब्ध है तथा साथ ही कम्पनी के पंजीकृत

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली. 2015 तथा सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा)

विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह

कम्पनी अपने सदस्यों -को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा

रही है तथा व्यवसायों "को नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटराज लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदत्त रिमोट

ई- वोटिंग सुविधा द्वारा निष्पादित किया जायेगी। रिमोट ई- वोटिंग अविध गुरूवार, 26 सितम्बर, 2024 को 9.00

बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा रविवार, 29, सितम्बर, 2024 को 5.00 कजे अप. में बंद होगी, उसके बाद रिमोट

ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा फिर ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी। स्वच्छ तथा पारदर्शी क्रिया में

कानून के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिये भी सुरिन्दर किशोर, प्रॉप्राईटर कपाटी एंड

सदस्यों के मतदान का अधिकार 23 सितम्बर, 2024 की कट-ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर में

उनकी शेयरों के अनुपात में होगा। उक्त कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डिमेटेरियनाइड पद्धित में कम्पनी का

शेयर धारित करने वाले सदस्य रियोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के योग्य होंगे यदि कोई व्यक्ति एजीएम सूचना

के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करते हैं। तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2024 को शेयर

धारित करते हैं। वे , evoting@ nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते

एजीएम में मतदान द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2024

को सदस्य जिन्सने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किए हो, एजीएम में मत पत्र द्वारा अपने मताधिकार का

प्रयोग करने करने में सक्षम होंगे। जिन सदस्यों ने हैं, एजीएम से पूर्व इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अपना मतदान दिए

ई-वोटिंग प्रक्रिया से युक्त एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.nktil.com पर तथा एनएसडीएल

की वेबसाइट https://www.evotitng.nsdl.com यह भी उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये

सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध Frequently Asked

Questions (FAQS) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800222990 पर एनएसडीएल

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध

तथा प्रशासक) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन,

2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 24

सितम्बर, 2024 से सोमवार 30 सितम्बर, 2024 दोनों दिवस सिहत तक वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों का

CIN: L74899DL1987PLC026617

Regd. Office: 3rd Floor, Surva Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends

Colony, New Delhi - 110025, E-mail: cs@modisteel.net,

Website: www.modisteel.com, Phone: 011-49872442, 19

PUBLIC NOTICE – 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of National

General Industries Limited ("the Company") will be held through video

conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the

applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made

thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular dated

September 25, 2023 read with Circular December 28, 2022, dated May 5, 2022,

December 14, 2021, December 8, 2021, January 13, 2021, May 5, 2020, April

2020 and April 8, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI)

Circular dated October 7, 2023 read with Circular dated January 5, 2023, May

13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred to as

Circulars), on Monday, 30th September, 2024 at 1:30.P.M. to transact the

business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in

furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM

and Annual Report for the financial year 2023-24, will be sent through

electronic mode only to those members whose email addresses are registered

with the Company / Depository Participant. The members attending the

meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum

under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY

2023-24 of the Company will be available on the website of the Company at

www.modisteel.com and also be available on the website of the BSE Limited at

The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only

Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM.

Accordingly, please note that no provision has been made to attend and

participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with

In case the email address is not registered with the Company / Depository

Participant, please follow the process of registering the same as mentioned

Physical Holding | Send a request to Registrar and Transfer Agents of the

Card) for registering email address.

if not registered already.)

during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

Company, Skyline Financial Services Private Limited at

info@skylinerta.com providing Folio number, Name of

the shareholder, scanned copy of the share certificate

(Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN

Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar

Please send your bank detail with original cancelled

cheque to our RTA (i.e. Skyline Financial Services Private

Limited, D-153A, 1st Floor, Okhia Industrial Area, Phase - I,

New Delhi-110020 alongwith letter mentioning folio no.

Please contact your Depositary Participant (DP) and

register your email address as per the process advised by

Please also update your bank detail with your DP for

For National General Industries Ltd

(Vandana Gupta)

A-24012

Company Secretary

dividend payment by NACH if declared by company.

Members may also note that if your e-mail id is registered with the

Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / e-

voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with

the notice of AGM. However, members who have not registered their email-id

can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above.

Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting

The above information is being issued for the information and benefit of all the

members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and

remote e-voting facility to all its members similar to earlier practices.

www.bseindia.com, in due course of time.

the directives issued by MCA and SEBI.

Demat Holding

the SEBI Circular.

Place: New Delhi

Date: 2nd September, 2024

हो वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होगे।

For Jauss Polymers Limited

Place: Noida Dated: 03rd September, 2024

अप. में आयोजित की जाएगी।

पद्धति में सभी प्रेषणों को पूरा कर किया है।

एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को बोर्ड ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

से संपर्क करें अथवा Investor@masserv.com पर मेल करें।

अभिलेख प्राप्त करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 3.9.2024

कार्यालय से पाप्त की जा सकती है।

Priya Parashar Company Secretary

INNOVATIVE TECH PACK LIMITED

प्रीमियम मर्चेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ओमेक्स स्क्वॉयर, प्लॉट नंबर 14, तृतीय तल, जसोला जनपद केंद्र,

जसोला, नई दिल्ली-110025

सीआईएनः L51909DL1985PLCO21077, दूरभाष : +91 11 61119661 / 371

ईमेल आईडी : premiummerchants123@gmail.com,

वेबसाइट : www.pmltd.in

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को

अप. 2.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ओमेक्स स्क्वॉयर, प्लॉट नंबर 14, तृतीय तल, जसोला जनपद केंद्र,

जसोला, नई दिल्ली–110025 में वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए

वार्षिक रिपोर्ट, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची के साथ एजीएम की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप

में भेजी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास

पंजीकृत है, जब तक कि सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध नहीं किया हो। अन्य सभी सदस्यों को

अनुमत मोड के माध्यम से भौतिक प्रति भेजी गई है। कंपनी ने सोमवार 2 सितंबर, 2024 को ई–मेल और अन्य

तरीके, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची का संकेत दिया गया है, कंपनी की वेबसाइट www.pmltd.in पर उपलब्ध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम,

2015 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ,

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान

करके संतुष्ट है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई दूरस्थ ई-वोटिंग

सुविधा के माध्यम से कारोबार किया जा सकता है। दूरस्थ ई—वोटिंग अविध गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को सुबह

9 बजे से शुरू होकर रविवार 29 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद दूरस्थ ई—वोटिंग अक्षम

कर दी जाएँगी और उसके बाद कोई ई—वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने ई—वोटिंग प्रक्रिया को कानून

के अनुसार तथा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री सुरिंदर किशोर कपाही, प्रोपराइटर

सदस्यों के वोटिंग अधिकार 23 सितंबर 2024 की कट—ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में

उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। उक्त कट-ऑफ तिथि पर भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य

रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद

कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट—ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 तक ऐसे शेयर रखता है, वह

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और केवल वे सदस्य ही एजीएम

में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने के हकदार होंगे, जिन्होंने "कट—ऑफ तिथि" यानी 23 सितंबर, 2024

को रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम

से अपना वोट डाला है, वे अभी भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का

एजीएम की सूचना जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ ई—वोटिंग की प्रक्रिया भी शामिल है, कंपनी की वेबसाइट

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर

पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800—222—990

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन

एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015

के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बहियां वार्षिक आम बैठक में

शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से मंगलवार 24 सितंबर, 2024 से सोमवार 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन

कृते प्रीमियम मर्चैट्स लिमिटेड

हस्ता./-

ज्योति भारती

www.pmltd.in पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या investor@masserv.com पर एक मेल लिख सकते हैं।

evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

अनुमत तरीकों से सभी प्रेषण पूरे कर लिए हैं।

अधिकार नहीं होगा।

सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 03-09-2024

है और इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

कपाही एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को जांचकर्ता नियुक्त किया है।

CIN: L74999HR1989PLC032412 Registered Office: Plot No. 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 Website: www.itpigroup.com, E-mail: grievence@itpigroup.com

Tele. No.: 120-7195236-239 NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of Innovative Tech Pack imited will be held at 09:00 AM on Monday, 30th September, 2024 at Hakim Ji Ki Choupal, Opp. Batra Hospital, Vill. Ujina, Police Station Nuh, Sohna, Haryana-122103 to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice").

Notice along with Annual Report for 2023-24 have been sent through electronic mode to all the members whose email ID's are registered with company/Depository Participants. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 03rd September, 2024 Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the cut off date i.e. Monday 23rd September, 2024, the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice

- The e-voting period will commence on Friday, 27th September, 2024 at 09:00 am and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 05:00 pm. The remote e-voting will be disabled by CDSL beyond the said date and time
- The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday 23rd September 2024. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding
- shares as on the cut-off date i.e Monday 23rd September 2024, may obtain the User Id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be
- The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM.

allowed to be changed subsequently.

- A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e. Monday 23rd September 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM
- The Notice along with Annual Report is available at the Company's website viz www.itplgroup.com The Notice is also available on the website of CDSL viz www.cdslindia.com
 - All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

For Innovative Tech Pack Limited Place: Noida

अंकित चतुवेदी कम्पनी सचिव

एनके टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

Mohit Chauhan Dated: 03rd September, 2024 Company Secretary

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.

जा.के. कंसल्टेंट्स लिमिटेड CIN-L74140DL1988PLC034109

कैलाश के पूर्व, नई दिल्ली-110065, भारत ई-मेलः akg_gkcl@yahoo.co.in वेबसाइटः www.gkconsultantsltd.com

फोन: 011-26489299, 26489431 फैक्स: 011-26489299 सार्वजनिक सूचना : 36वीं वार्षिक आम बैठक

पंजीकृत कार्यालयः 302, जी.के. हाउस 187ए, संत नगर,

यह सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और इस संबंध में जारी बाद के परिपत्रों, नवीनतम क्रमशः 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र संख्या 9/2023 (सामहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सचीबद्धता विनियम') के सभी लागु प्रावधानों, और 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 के सेबी परिपत्र और इस संबंध में जारी बाद के परिपत्र, नवीनतम 07 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में 36वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित अनुसार कारोबार करने के लिए मेसर्स जी.के. कंसल्टेंट्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'/'मीटिंग') वीडियो कॉन्फ्रेंस

4:00 बजे आयोजित की जाएगी। उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 36वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक प्रतियां निर्धारित समयसीमा के भीतर उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार/आरटीए')/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं। सेबी परिपत्र के अनुसार, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की कोई भी भौतिक प्रतियां किसी भी शेयरधारक को नहीं भेजी जाएंगी। उक्त एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.gkconsultantsltd.com और बीएसई लिमिटेड की

('वीसी')/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को शाम

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और उपस्थित हो सकते हैं, जिसका विवरण कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली ('ई-वोटिंग') के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सचना में प्रदान की गई है, जो उन्हें शीघ्र ही भेजी जाएगी। 'रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार कर

सकते हैं। ईमेल पते को पंजीकत/अद्यतन करने का तरीकाः

दिनांकः 02 सितंबर, 2024

स्थानः नर्ड दिल्ली

वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

- (क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति ईमेल द्वारा कंपनी को akg_gkcl@yahoo.co.in/ beetalrta@gmail.com पर भेजें।
- (i) उनके नाम, फोलियो नंबर और पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र; (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और
- (iii) पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र,
- ख) डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी

प्रतिभागी(यों) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें, जिसमें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-

वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका शामिल है। इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए, कृपया कंपनी से akg gkcl@yahoo.co.in पर संपर्क करें।

> जी.के. कंसल्टेंट्स लिमिटेड के लिए दिव्या मालिनी गुप्ता प्रबंध निदेशक

ब्रिलियंट पोर्टफोलियो लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बी–09, 412, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088

फोन नं. 011-45058963, सीआईएनः L74899DL1994PLC057507 ईमेल आईडी: brilliantportfolios@gmail.com, वेबसाइटः www.brilliantportfolios.com

तद्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रिलियंट पोर्टफोलियो लिमिटेड (''कंपनी'') की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') रविवार, 29 सितंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो वेजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार कारोबार किया जा सके। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए सर्कुलर'') द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार एजीएम इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की जाती है।

एमसीए परिपत्रों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट) के साथ एजीएम बुलाने की सूचना 2 सितंबर, 2024 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') / कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट जैसे मास सर्विसेज लिमिटेड ('आरटीए') के साथ पंजीकृत हैं। कोई सदस्य कंपनी कं brialportfolios@gmail.com पर ई-मेल भेजकर वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति के लिए अनुरोध कर

एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.brilliantportfolios.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evotingnsdl.com पर भी उपलब्ध है। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज नोटिस के प्रेषण की तिथि से रविवार, 29 सितंबर, 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को brillientportfolios@gmail.com पर लिखें। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बैठव

शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट बाद एनएसडीएल द्वारा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराई गई सुविधा के माध्यम से लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके और कंपनी की एजीएम के लिए ई–वोटिंग इवेंट नंबर (ईवन) का चयन करके एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया नोटिस में उल्लिखित है।

दरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश . अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सामान्य बैठकों पर सचिवीर मानक तथा सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में कि

जाने वाले कारोबार के संबंध में दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा कंपनी द्वारा एनएसडीएल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। दूरस्थ ई—वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा एनएसडीएल के साथ आवश्यक व्यवस्थ की गई है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि यानी रविवार, 22 सितंबर, 2024 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों / लाभकारी मालिकों की सूची के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। रिमोट ई-वोटिंग निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

| | रिमोट ई–वोटिंग की शुरुआत | गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 सुबह 9 बजे (आईएसटी) |
|---|---------------------------|--|
| ı | रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति | शनिवार, 28 सितंबर, 2024 शाम 5 बजे (आईएसटी) |

- रिमोट ई—वोटिंग शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद अक्षम कर दी जाएगी और इसे केवल एजीएम के दौरान ही सक्षम किया जाएगा।
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट देने
- जो सदस्य वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम
- से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वे • जिस तरह से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर हासिल करने वाले और कंपनी के सदस्य बनन
- वाले व्यक्ति नोटिस में उल्लिखित आवश्यक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ● इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए, यदि ई—मेल पता डीपी / कंपनी / आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, तो सदस्य कंपनी को brialportfolios@gmail.com पर ई-मेल भेजकर ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं, जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके पास शेयर डीमैट रूप में हैं, तो वे अपने डीपी वे साथ और यदि उनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, तो कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत करें।
- सभी सदस्यों (जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैंधीजनके ई-मेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं) के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में दिए गए हैं।

डेपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभृतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण नीचे दिया गया हैः |

| लॉगिन प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण | | |
|---|---|--|--|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं | | |
| सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेरक से संपर्क कर सकते हैं या सीडीएसएल 022–23058738, 022–23058542–43 या 1800 22 5533 पर संपर्क कर सकते हैं। | | |

स्थान नई दिल्ली दिनांकः 03.09.2024

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

यूनिटेक लिमिटेड unitech CIN: L74899DL1971PLC009720

ब्रिलियंट पोर्टफोलियो लिमिटेड के लिए

पंजी. कार्यालय बेसमेंट, ६, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 कॉर्पोरेट कार्यालय: 13वां तल, टॉवर-बी, यूनिटैक सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम- 122007 | टेली.: 011,26857338

ई-मेल: share.dept@unitechgroup.com | वेव: www.unitechgroup.com 53वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदहारा सुचना दी जाती है कि कार्परिट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') हारा जारी सामान्य परिपत्र (१) और मारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र (१) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण उत्तरदायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 (''सुचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (''सुचीकरण विनियम'') वं सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में एजीएम नोटिस दिनांक 8 अगस्त, 2024 में यथा निर्धारित बिजनेस के संचालन के लिए, बृहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2024 को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो विज्ञाल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए सूचना और अनुदेशों के संबंध में एजीएम नोटिस के नोटस में उल्लेख किया गया है। अधिनिनियम की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना की जायंगी।

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, 53वीं एजीएन का नोटिस और कित्तीय वर्ष 2022-23 (उक्त विलीय विवरणों में अथवा इन पर रिपोर्ट्स में बिना किसी संशोधन के, जो भी हो) और 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिनमें वित्तीय विवरण, निवेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट साथ में संलग्न किये जाने हेत् अपेक्षित अन्य दस्तावेज कंपनी के जन सभी सदस्यों को ई-मेल से भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल पते 23 अगस्त, 2024 को कंपनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमि० की वेबसाइट क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com, पर भी उपलब्ध हैं, और वहां से इन्हें डाउनलोंड किया जा सकता है। एजीएम का नोटिस नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोंजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है !

अधिनियम की धारा 108 में उल्लिखित प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए संगत नियमों वे साथ पठित, और सुचीकरण विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को 53वीं एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है औ बिजनेस को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के जरिए संचालित किया जा सकता है। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य और जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग से अपन वोट नहीं दिया है, एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्षम होंगे। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और एजीएम की तिथि को ई-वोटिंग सिस्टम एनएसडीएल हार www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग से मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2024 है। केवल ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेगे, वीसी/ओएबीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने और / या एजीएम में ई-वीटिंग करने का हकदार होगा।

रिमोट ई-बोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) आरंभ होगी और बूधवार, 25 सितंबर, 2024 को साथं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त हो जायेगी। इस तिथि और समय के बाद रिमोट

ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। भौतिक रूप में अथवा डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों द्वारा और चन सदस्यों के लिए जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं

कराए हैं. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग करने का तरीका एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराया गया है।

7 कोई व्यक्ति, जो कि एजीएम के नोटिस के प्रेषण के उपरांत कंपनी के शेयर धारण कर लेता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 सितंबर, 2024 को शेयर धारण कर लेता है, वह एजीएम के नोटिस में यथा वर्णित रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-बोटिंग के लिए समान अनुदेशों का पालन कर सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य पहले से रिमोट ई-बोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई-बोटिंग व जरिए अथवा एजीएम में ई-वोटिंग करने के लिए मौजूदा लॉगिन आईडी / यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। लॉगिन आईडी / यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराई गई है।

जो सदस्य एजीएम से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दें चुके हैं, वे भी एजीएम में उपरिधत हो सकते हैं, परंतु वे एजीएम में दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

 एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमों वे विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स कंपनी की 53वीं एजीएम के उद्देश्य के लिए शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से बृहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

०सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई−मेल पता, टेलीफोन / मोबाइल नंबरों में परिवर्तनों, यदि कोई है, स्थाई खाला संख्या ('पैन'), नामाकन, बैंक विवरण, जैसे कि बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता नंबर, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि के संबंध में निम्नानार सुचित करें।

(क) भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए: सेबी मास्टर सर्कुलर सेबी / एवओ / एमआईआरएसडी / पीओडी--1 / पी / सीआइआर / 2024 / 37 दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में कंपनी के आरटीए को, निर्धारित फार्म आईएसआर—1 और अन्य संगत फार्म कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com पर उपलब्ध हैं।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए: अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जिनके साथ वे अपने डीमेट खाते का रखरखाव करते हैं।

1 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत अथवा किसी प्रश्न के मामले में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए बारबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथया 022-48867000 पर कॉल करें अथवा अपना अनुरोध evoting@nsdl.com पर सुश्री पल्लवी महाने, वरिष्ठ प्रबंधक को भेजें।

> कृते यूनिटेक लिमिटेड हस्ता/

धानः गुरुग्राम देनाक: 04.09.2024



एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल पंजीकृतं कार्यालय : ए-223, ओखला ओद्योगिक क्षेत्र, फेस-1 नई दिल्ली-110020 सीआईएनः U74899DL1978NPL008877 टेलीफोनः 011-40501798 ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com

45वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों को सुचना

यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए परिपन्न / त्रॉ') द्वारा क्रमशः जारी सामान्य परिपन्न संख्याः 14 / 2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17 / 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02 / 2022 दिनांक 05 मई: 2022 तथा 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित करने हेत् सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, परिषद् की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन शुक्रवार दिनांक २७ सितंबर, २०२४ को पूर्वाहन ११.०० बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी) / अन्य आडियों विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से किया जायेगा।

एमसीए के परिपन्न / त्रों के अनुसार, 45वीं एजीएम की सूचना एवं 31 मार्च, 2024 ("वार्षिक रिपोर्ट") को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2023–2024 की वार्षिक रिपोर्ट, चन सभी सदस्यों को केवल ई-मेल द्वारा भेजी जायेगी, जिनके ई-मेल पते परिषद के पास पंजीकृत होगें। यदि कोई सदस्य, परिषद् के साथ अपनी ई—मेल आईडी पंजीकृत या अद्यतन करना चाहता है, तो वह कंपनी का नाम, सदस्य संख्या, अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, ई-मेल aepc.agm.2024@aepcindia.com पर भेज सकते हैं।

सदस्य, 45वीं एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम सुविचा के मध्यम से ही शामिल हो सकते है / भाग ले सकते हैं। 45वीं एजीएम की सूचना में, 45वीं एजीएम में शामिल होने और 45वीं एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भागीदारी करने या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट खालने के तरीके के अनुदेश दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भागीदारी करने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना हेतु गिना जायेगा। 45वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट अधीत् www.aepcindia.com पर और साध ही मैसर्स एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यों से अनुरोध हैं कि एजीएम की सूचना में दी गई समी टिप्पणियों एवं विशेष रूप से 45वीं एजीएम में शामिल होने के लिए अनुदेश, एजीएम के दौरान रिमोट ई-बोटिंग या ई-बोटिंग के मध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़े।

उपर्युक्त सूचना, परिषद के सभी सदस्यों की जानकारी एवं हित हेतु जारी की जा रही है तथा यह कॉर्पीरेट कार्य मंत्रालय(एमसीए) के परिपन्नों के अनुपालन में है।

दिनांक : 03/09/2024 स्थान : नई दिल्ली

(सुमित गुप्ता)

कृते एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

भारतीय साधारण बीमा निगम

(भारत सरकार की एक कंपनी) GIC Re

पंजीकृत कार्यालय: 'सुरक्षा', 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. द्रभाष: +91-22-2286 7000 • फॅक्स: +91-22-2288 4010 वेबसाइट: www.gicre.in • ई-मेल: investors.gic@gicre.in सीआईएनः L67200MH1972GOI016133 • आईआरठीएआई पंजीकरण संख्याः 112

52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वार्षिक आम बैठक: एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय साधारण बीमा निगम की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार 26 सितंबर, 2024 को दोपहर 03.00 बजे (भारतीय समयानुसार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी ज एमसीए के लागू परिपन्नों और कंपनी अधिनियम और सेंब्री विनियमों (सामृहिक रूप से वैधानिक प्रावधानों के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में जैसा की निर्धारित किया गया है, कार्य करेगी। एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में होगी।

एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम की एजीएम बुलाने वाली और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना **मंगलवार 3 सितंबर, 2024** को उन्हें ईमेल से भेजी गई है जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंटस (डीपी) / रजिस्टार और टांसफर एजेंटों (आरटीए) के पास पंजीकृत थीं। उपर्युक्त दस्तावेजों को निगम की वेबसाइट www.gicre.in, स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा ई-वोटिंग एजेंसी मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज हिपॉजिटरी लिमिटेड ("'एनएसडीएल'') की वेबसाइट www.evoting. nsdl.com पर भी देखा जा सकता है।

इलेक्टॉनिक माध्यमों से ई-वोटिंग; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ साथ अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में निगम ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाएं ली हैं:

| विवरण | एजीएम से पहले | एजीएम के दौरान |
|---|--|--|
| रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत | शनिवार 21 सिलंबर, 2024 सुबह 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से | गुरुवार 26 सितंबर, 2024 |
| रिमोट ई-थोटिंग का अंत | बुधवार 25 सितंबर, 2024 शाम 05.00 बजे तक (भारतीय समयानुसार) | गुरुवार 26 सितंबर, 2024 (एजीएम की समाप्ति के 15मिनट बाद) |
| कट-ऑफ तिथि (मतदान की पात्रता के लिए) | गुरुवार 19 सितंबर, 2024 https://www.evoting.nsdl.com EVEN = 130946 | |
| एक्सेस करने के लिए वेबलिंक | | |
| ई-वोटिंग इवेंट नंबर | | |

सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया एजीएम की सूचना में उल्लिखित ई-बोटिंग की प्रक्रिया देखें।

केवल वहीं व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को सदस्यों/ लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वह वार्षिक आम बैठक में मतदान के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

2. सदस्यों के मताधिकार 19 सितंबर, 2024 को निगम की चुकता इकिटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्रिटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

- जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद लेकिन ई-वोटिंग की कट-ऑफ तारीख से पहले यानी 19 सितंबर, 2024 से पहले निगम का सदस्य बन जाता है, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए फोलियों नंबर/डीपी-आईडी क्लाइंट आईडी का विवरण देकर investors.gic@gicre.in पर निगम से इमेल के द्वारा अनुरोध कर सकता है। ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे दुरस्थ ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में नोट्स के तहत दिए गए
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे वीसी/ओएबीएम वे माध्यम से एजीएम में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- 5. जो सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोर्टिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं डाला है और अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र होंगे।
- वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले वैधानिक रिजस्टरों/दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य एजीएम की तारीख तक पैन कार्ड के साथ-साथ अपनी डीपी-आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर बताते हुए ईमेल आईडी: cs.gic@gicre.in पर निगम को लिख सकते हैं।
- जो सदस्य एजीएम के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 (भारतीय समयानुसार 09:00 बजे) और शनिवार 21 सितंबर, 2024 (भारतीय समयानुसार शाम 05:00 बजे) के बीच gicagm.speakers@gicre.in पर अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करके रुपीकर के रूप में खुद को पंजीकृत करना होगा। एजीएम के दौरान केवल उन सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुम ति होगी जिन्होंने स्पीकर के रूप में खुद को पूर्व-पंजीकृत किया है। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- प्रश्न पृथ्नने के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पृथ्ठे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल पर देख सकते हैं। सदस्य निम्नलिखित पर भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 या 1800-22- 44-30 या एनएसडीएल से evoting@ nsdl.com पर नामित इंमेल आईडी से संपर्क करें।
- निगम के निदेशक मंडल ने 10 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एजीएम में अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को लामांश का भुगतान किया जाएगा। माननीय सदस्यगण ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कंपनी द्वारा सदस्यों को किया गया भुगतान या वितरित लाभांश कर योग्य है। निगम द्वारा सदस्यों को लाभांश के भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। लागू टीडीएस दरों को निर्धारित करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभांश के लिए गुरुवार 12 सितंबर, 2024 को या उससे पहले संबंधित दस्तावेक जमा करें. लाभांश पर टीडीएस के बारे में विरन्त जानकारी: https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/ investors-en/notice-communication-to-shareholders लिंक पर दिया गया है।

 निगम ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश प्राप्त करने हेत् सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए रेकॉर्ड तारीख के रूप में बुधवार 11 सितंबर, 2024 निर्धारित किया है, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित तरीकें से लामांश भूगतान की समय पर प्राप्ति के लिए रेकॉर्ड तारीख को या उससे पहले अपने बैंक विवरण (खाता संख्या और आईएफएससी) और डाक पते को अद्यतन करें:

- डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी में रद्द चेक की एक प्रति के साथ अपने डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र के साथ कैवाईसी दस्तावेज जमा करें।
- मौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे पैन, केवाईसी, विवरण या उसमें परिवर्तन/अद्यतन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ फॉर्म आईएसआर -1 को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), कार्वी सेलेनियम, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिवट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032. दूरभाष संख्या: (040) 6716 1562; फैक्स नंबर: (040)

2300 1153; ई-मेल पता: einward.ris@kfintech.com पर जमा करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्थायी खाता संख्या (पैन), केवाईसी विवरण और आरटीए (भौतिक शेयरों के मामले में) / डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स (डीमैंट शेयरों के मामले में) में नामांकन को अद्यतन करें।

यह सार्वजनिक सूचना निगम की वेबसाइट (www.gicre.in) पर भी उपलब्ध है। भारतीय साधारण बीमा निगम के लिए

> एसडी/ (सुरेश सावलिया) कंपनी सचिव

अनुराघा मिश्रा स्थानः मुंबई कंपनी सचिव दिनांक: 03.09.2024

www.readwhere.com